



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹599 FOR
1 YEAR
BUY NOW

testbook

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 77 वें पायदान पर - GK नोट्स को PDF में डाउनलोड करें!

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक सापेक्ष सूचकांक है और समय के साथ अर्थव्यवस्थाओं में संगतता पर आधारित है। सरल शब्दों में, व्यवसाय करने में देश की आसानी इस बात पर निर्भर करती है कि देश में एक उद्यम स्थापित करना कितना आसान है। उच्चतर व्यापार रैंकिंग करने में आसानी आमतौर पर व्यापार के सरल नियमों और संपत्ति के अधिकारों की उच्च सुरक्षा का संकेत देती है। यह सूचकांक विश्व बैंक समूह में शिमोन दजनकोव द्वारा बनाया गया था। बिजनेस इंडेक्स करने की आसानी विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस टीम द्वारा की जाती है। यदि आप रेलवे और बैंकिंग परीक्षाएँ आईबीपीएस पीओ, केनरा बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल, रेलवे समूह डी इत्यादि दे रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जानना आवश्यक है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग - राष्ट्रों की रैंकिंग

सूचकांक पर एक राष्ट्र की रैंकिंग 10 उप-सूचकांक के औसत पर आधारित है:

1. **व्यवसाय शुरू करना** - एक नया व्यवसाय खोलने के लिए प्रक्रियाएँ, समय, लागत और न्यूनतम पूंजी।
2. **निर्माण परमिट के साथ काम करना** - गोदाम बनाने के लिए प्रक्रियाएँ, समय और लागत।
3. **बिजली प्राप्त करना** - एक नए निर्माण गोदाम के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ, समय और लागत।
4. **संपत्ति पंजीकरण** - वाणिज्यिक अचल संपत्ति रजिस्टर करने के लिए प्रक्रियाओं, समय और लागत।
5. **क्रेडिट प्राप्त करना** - कानूनी अधिकार सूचकांक की ताकत, क्रेडिट सूचना सूचकांक की गहराई।
6. **निवेशकों की रक्षा** - प्रकटीकरण की सीमा पर निदेशक, निदेशक देयता की सीमा और शेयरधारक सूट की आसानी।
7. **कर चुकाना** - भुगतान किए गए करों की संख्या, प्रति वर्ष घंटे कर रिटर्न तैयार करने और सकल लाभ के हिस्से के रूप में देय कुल कर।
8. **सीमा पार व्यापार** - निर्यात और आयात करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, लागत और समय की संख्या।
9. **अनुबंध लागू करना** - ऋण अनुबंध को लागू करने के लिए प्रक्रियाएँ, समय और लागत।
10. **दिवालियापन को हल करना** - दिवालियापन कार्यवाही के तहत समय, लागत और वसूली दर (%)।





testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹400 FOR
4 MONTHS
BUY NOW

testbook

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टॉप 10 देश

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यह टॉप 10 देश हैं और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में उनके ईओडीबी स्कोर हैं:

1. न्यूजीलैंड - 86.59
2. सिंगापुर - 85.24
3. डेनमार्क - 84.64
4. हांगकांग - 84.22
5. कोरिया - 84.14
6. जॉर्जिया - 83.28
7. नॉर्वे - 82.95
8. संयुक्त राज्य - 82.75
9. यूनाइटेड किंगडम - 82.65
10. मैसेडोनिया - 81.55

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस- भारत का प्रदर्शन

- विश्व बैंक की बिजनेस रिपोर्ट 2019 की में भारत ने 23 अंकों की छंलाग लगाकर 77 वें पायदान पर पहुँच गया है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत- चीन, अफगानिस्तान, जिबूती, अज़रबैजान आदि के साथ इस तरह के बड़े सुधार के बाद शीर्ष 10 देशों में से एक है।
- 2014 में भारत 142 वें अंक पर आसीन था, जब कि 2018 में वह 77 वें स्थान पर है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
- भारत को सबसे बड़ा लाभ निर्माण परमिट में हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसमें आने वाली कई बाधाओं को दूर किया है। भारत ने 10 संकेतकों में से 6 में अपनी रैंक में सुधार किया है और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब जा रहा है।
- भाजपा की अगुआई वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद से लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को कम कर दिया है जिसने भारत के सुधार में काफी योगदान दिया है।
- निर्माण परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, परमिट प्राप्त करने के समय में कमी, देशों भर में माल की आसान शिपिंग, बिजली सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार ने भारत के सुधार में योगदान दिया है।

LIVE COURSE
GA & BANKING
AWARENESS

Banking Awareness
Financial Awareness
Important Current Affairs

HURRY!!
500 SEATS ONLY!!
BOOK NOW

testbook.com



testbook **PASS**

ATTEMPT ALL TESTS
ACROSS ALL EXAMS

₹599 FOR
1 YEAR
BUY NOW

testbook


इस तरह के अन्य विषयों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लेख को पढ़ें-

<u>सीबीआई के कार्य और उसकी प्रमुख भूमिकायें</u>	<u>भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची</u>
<u>RBI का प्राथमिकता क्षेत्र उधार -GK नोट्स PDF में डाउनलोड करें!</u>	<u>भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज की सूची - PDF में GK Notes को Download करें!</u>

जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभ्यास सफलता की कुंजी है। इसलिए, अपना अभ्यास शुरू करें और अपनी तैयारी को बढ़ावा दें।

[फ्री में प्रश्नों को हल करें!](#)

इसके अलावा, टेस्टबुक पर अपने संदेहों को दूर करने के लिए अपने साथी उम्मीदवारों और हमारे विशेषज्ञों से बात करें:

 [टेस्टबुक डिसकस पर जायें!](#) **testbook.com**

